

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 45: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2025-26	2025	2026		वि.व. 2025-26	2025	2026	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1. सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	56.84	4.36	4.37	4.44	367014602	27936158	29363078	30819254
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)	20.08	1.33	1.62	1.51	214487317	15356048	17227564	16548550
1.1.1 आउटराइट	11.76	0.76	0.94	0.84	17320069	1297378	1339433	1200663
1.1.2 रेपो	5.62	0.36	0.46	0.46	93385356	6589738	6696115	6833924
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.70	0.21	0.22	0.22	103781892	7468932	9192017	8513963
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	35.44	2.94	2.62	2.76	141483010	11758724	11010746	13006222
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.32	0.09	0.13	0.17	11044275	821387	1124767	1264482
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1. ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	3499.79	307.03	305.85	367.45	227372648	21401969	18859418	23758759
1.1 ग्राहक लेनदेन	3485.43	305.71	304.72	366.26	206929117	19394683	17509377	22131384
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	14.36	1.32	1.14	1.20	20443531	2007287	1350041	1627375
II खुदरा								
2. ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	2618738.01	202008.61	219247.40	244356.27	91939186	8242601	7793908	9619673
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.28	0.31	0.23	0.27	170	16	14	16
2.2 एपीबीएस \$	33854.21	3506.60	2119.52	3335.83	717040	66841	51081	83656
2.3 आईएमपीएस	49431.09	4616.39	3360.96	3656.79	7669929	667813	642474	740176
2.4 एनएसीएच जमा \$	18284.42	1861.26	1702.37	1561.87	1902293	176401	164970	181678
2.5 एनईएफटी	100996.15	9008.97	8122.47	9390.43	50226505	4854308	4251141	5661604
2.6 यूपीआई @	2416168.86	183015.08	203941.84	226411.08	31423250	2477222	2684229	2952542
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	14.31	1.26	2.32	1.23	188	14	25	13
3. डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	23471.34	1891.35	1989.09	2075.65	2697355	211047	235001	257724
3.1 भीम आधार पे @	231.96	19.59	16.45	20.99	7739	611	636	800
3.2 एनएसीएच नामे \$	21614.19	1724.79	1849.39	1927.45	2687459	210246	234191	256744
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1625.19	146.97	123.25	127.21	2157	191	174	180
4. कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	73039.76	5789.52	5855.08	6787.94	2807946	240549	210427	257443
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	60237.64	4586.50	4937.96	5774.77	2362471	201494	177292	219495
4.1.1 पीओएस आधारित \$	30153.21	2302.66	2434.00	2840.35	885019	71473	67435	78470
4.1.2 अन्य \$	30084.43	2283.84	2503.95	2934.41	1477452	130021	109857	141024
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	12802.12	1203.02	917.12	1013.17	445475	39055	33135	37948
4.2.1 पीओएस आधारित \$	9601.85	895.82	689.77	749.32	293537	25818	21862	24346
4.2.2 अन्य \$	3200.27	307.20	227.36	263.85	151938	13237	11273	13602
5. प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	98699.47	6783.69	8359.24	8749.63	286429	21465	25969	28563
5.1 वॉलेट	78570.94	5061.17	6652.06	6959.28	223016	16077	19829	22448
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	20128.53	1722.52	1707.18	1790.35	63414	5388	6140	6114
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8356.49	648.24	793.50	795.76	14373	1016	1427	1343
5.2.2 अन्य \$	11772.04	1074.28	913.68	994.59	49041	4372	4713	4771
6. पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	5587.83	531.76	430.51	491.89	7147568	659873	579783	691723
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	5587.83	531.76	430.51	491.89	7147568	659873	579783	691723
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2819536.40	217004.93	235881.31	262461.38	104878484	9375535	8845088	10855126
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	2823036.19	217311.96	236187.16	262828.83	332251133	30777505	27704507	34613885
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	2817448.36	216780.20	235756.65	262336.94	325103565	30117631	27124723	33922162

भाग II- भुगतान माध्यम और चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2025-26	2025	2026		वि.व. 2025-26	2025	2026	
		मार्च	फर.	मार्च		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	4	5	6	7
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1. मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	2226709.91	171174.23	186834.81	208802.98	45558525	3769671	3914512	4386917
1.1 इंस्टाबैंक \$	122837.81	9863.76	9717.48	10802.29	7917884	670272	685836	764234
1.2 अंतर-बैंक \$	2103872.09	161310.47	177117.33	198000.69	37640641	3099400	3228676	3622683
2. इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	44541.07	4096.24	3521.30	3869.61	158930351	13992340	13824038	16819300
2.1 अंतर्बैंक @	10212.76	1009.09	804.89	888.88	83681438	7319249	7438766	8836592
2.2 अंतर-बैंक @	34328.30	3087.15	2716.41	2980.72	75248914	6673091	6385272	7982708
बी. एटीएम								
3. एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	53689.48	4983.78	4168.36	4465.04	2873737	263892	231465	249762
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	81.07	7.43	6.35	7.08	4525	410	364	408
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	53394.13	4957.22	4145.12	4439.99	2858626	262540	230242	248419
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	214.27	19.13	16.89	17.97	10586	942	859	935
4. पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	1.69	0.22	0.14	0.14	22	2	2	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	1.39	0.19	0.11	0.10	18	2	2	2
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.30	0.03	0.03	0.04	4	0	0	0
5. माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	12126.36	1102.31	867.37	1075.37	322744	29561	24595	30529
5.1 एईपीएस @	12126.36	1102.31	867.37	1075.37	322744	29561	24595	30529

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2026 तक	2025	2026	
		मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1. कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	11633.90	11006.97	11594.71	11633.90
1.1 क्रेडिट कार्ड	1186.34	1098.85	1177.05	1186.34
1.2 डेबिट कार्ड	10447.56	9908.12	10417.67	10447.56
2. पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	22992.54	13401.46	22672.93	22992.54
2.1 वॉलेट @	18253.41	8678.44	17930.53	18253.42
2.2 कार्ड @	4739.13	4723.02	4742.40	4739.13
3. एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.54	2.56	2.53	2.54
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.16	2.20	2.15	2.16
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.38	0.36	0.38	0.38
4. माइक्रो एटीएम की संख्या @	13.90	14.82	13.90	13.90
5. पीओएस टर्मिनलों की संख्या	117.69	110.98	116.65	117.69
6. भारत क्यूआर @	56.33	67.18	58.97	56.33
7. यूपीआई क्यूआर *	7612.17	6579.30	7542.04	7612.17

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलएबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया है जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल हैं।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अनंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएच के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के बाद से डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तालुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेफो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5. दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन मिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
o बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
o जुलाई 2017 के डेटा में मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके किए गए वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके किए गए लेनदेन से संबंधित हैं।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।